

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 2696  
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

कश्मीर में पर्यटन  
2696. श्री कुमार केतकर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कश्मीर में पर्यटन की क्या स्थिति है;
- (ख) मई 2014 से पहले, पांच वर्षों के लिए कश्मीर की यात्रा करने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या संबंधी वास्तविक आंकड़े क्या हैं तथा विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए में अर्जित राजस्व के सटीक आंकड़े क्या हैं; और
- (ग) अगस्त, 2019 के पश्चात दिसंबर, 2022 तक कश्मीर की यात्रा करने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या संबंधी आंकड़े तथा विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में अर्जित राजस्व के आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : महोदय, जम्मू और कश्मीर में महामारी के बाद पर्यटन में भारतीय पर्यटकों (वर्ष 2021 की तुलना में 2022 के दौरान 64.5% वृद्धि) और विदेशी पर्यटकों (वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 1111.3% वृद्धि) के रूप में सुधार के अच्छे संकेत मिले हैं ।

(ख) और (ग) : पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटक आगमन के माह-वार आंकड़े तैयार नहीं किए जाते हैं तथापि वर्ष 2010 से 2014 के दौरान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) और घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| वर्ष | पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य |        |
|------|----------------------------------|--------|
|      | डीटीवी                           | एफटीवी |
| 2010 | 9973189                          | 48099  |
| 2011 | 13071531                         | 71593  |
| 2012 | 12427122                         | 78802  |
| 2013 | 10891424                         | 60845  |
| 2014 | 9438544                          | 86477  |

स्रोत : राज्य पर्यटन विभाग

नोट : लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 से 2022 के दौरान जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) और घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| वर्ष  | जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र |        |
|-------|----------------------------------|--------|
|       | डीटीवी                           | एफटीवी |
| 2019  | 16163330                         | 57920  |
| 2020  | 2519524                          | 5317   |
| 2021  | 11314920                         | 1650   |
| 2022* | 18617740                         | 19987  |

स्रोत : संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

नोट : उपरोक्त आंकड़ों में लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

\* अनंतिम

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन से सृजित राजस्व के आंकड़े तैयार नहीं किए जाते हैं तथापि वर्ष 2010 से 2022 के दौरान भारत में पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

कश्मीर में पर्यटन के संबंध में दिनांक 23.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2696 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

2010 से 2022 के दौरान भारत में पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय

| वर्ष    | एफईई (करोड़ रु. में) | एफईई (यूएस \$ मिलियन में) |
|---------|----------------------|---------------------------|
| 2010    | 66172                | 14490                     |
| 2011    | 83036                | 17707                     |
| 2012    | 95607                | 17971                     |
| 2013    | 107563               | 18397                     |
| 2014    | 120367               | 19700                     |
| 2015    | 134844               | 21013                     |
| 2016    | 154146               | 22923                     |
| 2017    | 177874               | 27310                     |
| 2018    | 194881               | 28586                     |
| 2019    | 211661               | 30058                     |
| 2020    | 50136                | 6958                      |
| 2021    | 65070                | 8797                      |
| 2022 #1 | 134543               | 16926                     |

# 1: अनंतिम अनुमान

\*\*\*\*\*